

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 1979/ज्येष्ठ 29, 1901
No. 251] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 1979/JYAISTHA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जून, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

क्र. आ. 349(अ.)/सं. ई.(सी)ओ., 1977/एएम (119).—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते
हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन
करने के लिए, निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्,—

1. इस आदेश का निर्यात (नियंत्रण) 32वां संशोधन आदेश की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977—खुले सामान्य लाइसेंस-3 के कालम 3
में क्रम सं. 78(91) के बाद निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाएगा :—

“92. एप्रोस्टैमा

93. एस्टर

94. आयरलैंड की घल्स
95. कलसियालाना
96. काउन्टरबरी बेल
97. कलाइन्थस
98. मेटइकोरिया
99. माइग्नेनेट
100. स्टाक
101. साइलेंस
102. स्वीट एलीसम
103. स्वीट सुल्तान
104. लस्कपुर 1"

[मिनिस्टर सं. 42/6/79-ई 2]

सी. वेंकटरामन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND
CO-OPERATION**

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 19th June, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S. O. 349(E)/No. E(C)O, 1977/AM(119).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :-

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-second Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, in Col. 2, the following items shall be added after S. No. 78(91) :

92. Agrostemma
93. Aster
94. Bells of Ireland
95. Calceolana
96. Counterbury Bell
97. Clanthus
98. Matoicaria
99. Mignenette
100. Stock
101. Silence
102. Sweet Alysum
103. Sweet Sultan
104. Laskpur"

[F. No. 42/6/79-F-III]

C. VENKATARAMAN,
Chief Controller, Imports & Exports.